



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 808) पटना, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-05/2012 खंड-I-1107—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन 31.12.2013 तक देय हैं, का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत

से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

- v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **परिशिष्ट-1** में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 16.12.2013 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1001 दिनांक 10.09.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2013 निर्धारित की गयी है।

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19.11.2013 (मंगलवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना दिनांक 16.12.2013 (सोमवार) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

फूल सिंह,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

प्राथमिक मिल्क को-ऑपरेटिव समिति, जिसका निर्वाचन देय है,
जिनका निर्वाचन दिनांक 01.10.2013 से 31.12.2013 तक देय है।

क्र०	MILK Coop Election Database No.	जिला	ग्राम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	VP18VS030217	VAISHALI	CHEHRAKALA	हिदायतपुर चकहाजी	Vaishal Patiliputra
2	VP18VS060218	VAISHALI	HAJIPUR	रजौली	Vaishal Patiliputra
3	VP18VS060219	VAISHALI	HAJIPUR	चकसैद लोमा	Vaishal Patiliputra
4	VP18VS060220	VAISHALI	HAJIPUR	म0 चकियारी	Vaishal Patiliputra

क्र०	MILK Coop Election Database No.	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
5	VP18PT170126	PATNA	NAUBATPUR	कहारीचक	Vaishal Patiliputra
6	VP18PT050125	PATNA	BIHTA	अमहारा	Vaishal Patiliputra
7	DR18BG040281	BEGUSARAI	BARAUNI	चौधरीटोला हाजीपुर	Desh Ratn Barauni
8	DR18BG050282	BEGUSARAI	BEGUSARAI	रामगढ़ इनियार म०	Desh Ratn Barauni
9	DR18BG050283	BEGUSARAI	BEGUSARAI	पचम्बा म०	Desh Ratn Barauni
10	DR18BG140289	BEGUSARAI	MATIHANI	दरियापुर	Desh Ratn Barauni
11	DR18BG060284	BEGUSARAI	BHAGWANPUR	हरिचक	Desh Ratn Barauni
12	DR18BG160290	BEGUSARAI	SAHEBPUR KAMAL	सबदलपुर	Desh Ratn Barauni
13	DR18BG100288	BEGUSARAI	DANDARI	जयन्तिग्राम सुघरन	Desh Ratn Barauni
14	DR18BG070285	BEGUSARAI	BIRPUR	बड़हारा	Desh Ratn Barauni
15	DR18BG080286	BEGUSARAI	CHERIA BARIARPUR	बिसनपुर पंचमुखी	Desh Ratn Barauni
16	DR18BG080287	BEGUSARAI	CHERIA BARIARPUR	कुम्भी	Desh Ratn Barauni
17	DR18BG180291	BEGUSARAI	TEGHRA	मधु० पूर्वी भीठ	Desh Ratn Barauni
18	DR18BG180292	BEGUSARAI	TEGHRA	बरौनी औ० क्षेत्र	Desh Ratn Barauni
19	DR18BG180293	BEGUSARAI	TEGHRA	बरौनी फ्लैग-2	Desh Ratn Barauni
20	DR18LK010014	LAKHISARAI	BARHIYA	मौबाला त्रिपुर सुन्दरी	Desh Ratn Barauni
21	DR18KH070046	KHAGARIA	PARBATT	माधवपुर	Desh Ratn Barauni
22	DR18KH070047	KHAGARIA	PARBATT	बलहा	Desh Ratn Barauni
23	DR18KH030043	KHAGARIA	CHAUTHAM	पिपरा	Desh Ratn Barauni
24	DR18KH030044	KHAGARIA	CHAUTHAM	मलपा म०	Desh Ratn Barauni
25	DR18KH010041	KHAGARIA	ALAULI	तिलकनगर	Desh Ratn Barauni
26	DR18KH010042	KHAGARIA	ALAULI	खुटहा	Desh Ratn Barauni

क्र०	MILK Coop Election Database No.	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
27	DR18KH040045	KHAGARIA	GOGARI	देवठा	Desh Ratn Barauni
28	TM18MZ160116	MUZAFFARPUR	SARAIYA	बल्ली सरैया	Timul
29	TM18MZ060115	MUZAFFARPUR	KATRA	नवादा म0	Timul
30	TM18MZ040114	MUZAFFARPUR	GAIGHAT	बहादुरपुर	Timul
31	TM18ST140037	SITAMARHI	RUNNISAIDPUR	खोपा	Timul
32	TM18SH050015	SHEOHAR	TARIYANI	लदौरा	Timul
33	TM18SH050016	SHEOHAR	TARIYANI	दुम्मा	Timul
34	TM18ES080044	E. CHAMPARAN	DHAKA	सरुपा	Timul
35	TM18ES010042	E. CHAMPARAN	ADAPUR	टिकुलिया	Timul
36	TM18ES040043	E. CHAMPARAN	BANKATWA	खरझखिया	Timul
37	MT18SM010305	SAMASTIPUR	BIBHUTIPUR	दामोदरपुर रैतोल	Mithila
38	MT18SM030306	SAMASTIPUR	DALSINGHSARAI	ओरियामा	Mithila
39	MT18SM060308	SAMASTIPUR	KHANPUR	रेबरा सिंगियाही महिला	Mithila
40	MT18SM110309	SAMASTIPUR	PUSA	धोबगामा महिला	Mithila
41	MT18SM150310	SAMASTIPUR	SHIVAJINAGAR	बाघोपुर	Mithila
42	MT18SM150311	SAMASTIPUR	ROSERA	मुरली	Mithila
43	MT18SM200312	SAMASTIPUR	WARISNAGAR	हजपुरवा	Mithila
44	MT18DR110013	DARBHANGA	JALE	रतनपुर	Mithila
45	MT18DR110014	DARBHANGA	JALE	कच्छुआ	Mithila
46	MT18DR110015	DARBHANGA	JALE	लतराहा	Mithila
47	SH18BJ070080	BHOJPUR	JAGDISHPUR	सुलतानपुर	Shahabad
48	SH18BJ070081	BHOJPUR	JAGDISHPUR	महिला इटौर	Shahabad
49	SH18BJ130082	BHOJPUR	TARARI	ईमादपुर	Shahabad
50	SH18BJ130083	BHOJPUR	TARARI	बिहटा	Shahabad
51	SH18BX090025	BUXAR	NAWANAGAR	महुअरी	Shahabad
52	SH18RH060040	ROHTAS	DINARA	धोडबछ	Shahabad
53	SH18RH020039	ROHTAS	BIKRAMGANJ	नुआँव	Shahabad
54	SH18RH060041	ROHTAS	DINARA	तेनुआठ मठिया	Shahabad
55	VK18BH010023	BHAGALPUR	BIHPUR	दयालपुर	Vikramsheel

परिशिष्ट-2

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	19.11.2013 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	05.12.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	06.12.2013 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	07.12.2013 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2013 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.12.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-3

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति,
निबंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के
सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निर्देशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर

(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(स्थान का नाम)

(स्थान का नाम)

(स्थान का नाम)

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य
अभ्यर्थियों की सूची

समिति का नाम :

[illegible]

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/मंत्री/उपाध्यक्ष/सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)					
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)					
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 808-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>